



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.11.2021

1-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी में तैयार होने वाले एलईडी के पार्ट्स की चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 03 मदर बोर्ड (एलईडी में इस्तेमाल होने वाले) बरामद।

दिनांक 11.11.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी में तैयार होने वाले एलईडी के पार्ट्स की चोरी करने वाले दो अभियुक्त 1. शमशाद पुत्र इसरार निवासी ग्राम नौगवा शादात, थाना नौगवा, जिला अमरोहा वर्तमान पता श्रीराम कॉलोनी, राजीव नगर, थाना खजूरी खास, दिल्ली, 2. पप्पू सिंह यादव पुत्र राजेश्वर प्रसाद यादव निवासी ग्राम अक्किलपुर, थाना दरियापुर, जिला सारंग, बिहार वर्तमान पता डी-969, जैदपुर एक्टेंशन पार्ट-2, जैदपुर, थाना सरिता विहार, बदरपुर, दिल्ली को थाना क्षेत्र के बी-87, सेक्टर-60 के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 03 मदर बोर्ड (एलईडी में इस्तेमाल होने वाले) बरामद किये गये हैं।

### **अपराध करने का तरीका:**

अभियुक्त ने बताया कि वह लोग मदर बोर्ड कम्पनी में से चुपचाप अपने बैग में रखकर कम्पनी से बाहर निकलकर बाजारों में व दिल्ली में जाकर आधे दामों में बेच देते थे तथा मिले पैसे को आपस में आधा-आधा बांट लेते थे।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.शमशाद पुत्र इसरार निवासी ग्राम नौगवा शादात, थाना नौगवा, जिला अमरोहा वर्तमान पता श्रीराम कॉलोनी, राजीव नगर, थाना खजूरी खास, दिल्ली।
- 2.पप्पू सिंह यादव पुत्र राजेश्वर प्रसाद यादव निवासी ग्राम अक्किलपुर, थाना दरियापुर, जिला सारंग, बिहार वर्तमान पता डी-969, जैदपुर एक्टेंशन पार्ट-2, जैदपुर, थाना सरिता विहार, बदरपुर, दिल्ली।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-905/21 धारा 381, 411 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

03 मदर बोर्ड (एलईडी में इस्तेमाल होने वाले)।



## 2-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12/11/2021 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 328/21 धारा 328,376D, 504,120 भादवि व 3(1)ध 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र रमेश शर्मा निवासी ग्राम मारहरा, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर को ग्राम मारहरा में अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

## अभियुक्त का विवरण:

अमन पुत्र रमेश शर्मा निवासी ग्राम मारहरा, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।

## अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 328/21 धारा 328,376D,504,120 भादवि व 3(1)ध 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

